

उत्तराखण्ड शासन  
संस्कृत शिक्षा अनुभाग  
संख्या- १४ /XLII-1/2019-04(02)2012टी0सी0  
देहरादून: दिनांक 23 जनवरी, 2019

कार्यालय ज्ञाप


एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद, देहरादून में उप सचिव के रिक्त पद पर प्रतिनियुक्ति/सेवा-स्थानान्तरण के माध्यम से तैनाती होने अथवा शासन के अग्रिम आदेश, जो भी पूर्व घटित हो, तक के लिए शासकीय कार्यहित में उप सचिव पद का प्रभार श्री संजू प्रसाद ध्यानी, सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा, टिहरी गढ़वाल को अतिरिक्त रूप से दिया जाता है।

2. श्री ध्यानी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों/दायित्वों के साथ-साथ उप सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद के कार्यों एवं दायित्वों का सम्पादन किया जायेगा। उक्त कार्यों हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन-भत्ते आदि अनुमन्य नहीं होंगे।

(इन्दुधर बौड़ाई)  
सचिव (प्रभारी)।

संख्या- १४ (1)/XLII-1/2019-04(02)2012 टी0सी0 तददिनांक।  
प्रतिलिपि निम्नलिखित को आवश्यक एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड कौलागढ़ रोड़, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 संस्कृत शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
4. सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत शिक्षा परिषद, देहरादून।
5. वित्त नियंत्रक, संस्कृत शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून।
6. मुख्य शिक्षा अधिकारी, टिहरी गढ़वाल।
7. सहायक निदेशक, संस्कृत शिक्षा, टिहरी गढ़वाल।
8. सम्बन्धित अधिकारी।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
  
(महिमा)  
उप सचिव।